

राज्य सभा सचिवालय
स्थापना (सा.) अनुभाग

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001

सं.आरएस/3/3/16-स्था.(सा.)

दिनांक 9 अप्रैल, 2018

परिपत्र
(सं.7/2018)

विषय : बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

राज्य सभा सचिवालय ने अपने 23 अगस्त, 2017 के परिपत्र सं. 23/2017 के हवाले से उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 16 अगस्त, 2017 के आदेश सं. ए-27012/02/2017-स्था.(भत्ता) को अपनाया है।

2. उपरोक्त आदेश के अनुसार, बाल शिक्षा भत्ते(सीईए) की प्रतिपूर्ति के लिए, उस संस्था, जहां सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है, के प्रमुख से इस प्रयोजनार्थ एक प्रमाणपत्र लेना पर्याप्त होगा। इस प्रमाणपत्र में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि पिछले अकादमिक वर्ष के दौरान बच्चे ने उस विद्यालय में अध्ययन किया है।

3. छात्रावास सब्सिडी के लिए संस्था के प्रमुख से इस अतिरिक्त अपेक्षा सहित ऐसा ही प्रमाणपत्र लेना पर्याप्त होगा कि इस प्रमाणपत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि का उल्लेख किया गया है। उल्लिखित व्यय की गई राशि, अथवा ऊपर यथाउल्लिखित सीमा, जो भी कम हो, का भुगतान कर्मचारी को किया जायेगा।

4. यह भी ध्यान रखा जाए कि बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् वर्ष में एक बार ही की जायेगी।

5. तदनुसार, सभी कर्मचारियों/ दावाकर्ताओं से प्रमाणपत्र (प्रपत्र संलग्न)के साथ बाल शिक्षा भत्ते के दावे प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है।

ह./-

(टी. केनेडी जेसुदासन)

अवर सचिव

सेवा में

सभी अधिकारी/अनुभाग/अधिकारियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी, राज्य सभा (केवल इन्टरनेट द्वारा)।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

ESTABLISHMENT (G) SECTION

(Estt. (G) Circular No.23/2017 dated 23.08.2017 and DoPT Order No.
A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16.08.2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL
(For reimbursement of Children Education Allowance)

Reference No.:

Date:

It is certified that Master/Kumari _____ having
Admission No. _____ D.O.B. _____ Son/Daughter
of Mr/Mrs _____ studying in Class _____
Section _____ Roll No. _____ during the previous Academic year
from _____ to _____ School/Institution, namely

_____ vide affiliation Regd. No./Code _____ and pattern _____ Curriculum.

Place :

Date :

**Signature of School Principal
With School Stamp**